

2. Each question carries 10 marks.

प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

1. "Old tax regime encouraged saving among citizens". Explain.

"पुरानी कर व्यवस्था ने नागरिकों में बचत को प्रोत्साहित किया"। व्याख्या कीजिए।

2. What do you understand by spending management? Discuss the steps to be followed in spending management.

व्यय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? व्यय प्रबंधन में अपनाए जाने वाले कदमों पर चर्चा कीजिए।

3. What is a medical insurance policy. Discuss the need and importance of buying a health insurance policy. मेडिकल बीमा पॉलिसी क्या है? स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने की आवश्यकता और उसके महत्व पर चर्चा कीजिए।

4. Discuss how an investor can protect himself against online frauds.

एक निवेशक ऑनलाइन धोखाधड़ी से खुद को कैसे बचा सकता है। चर्चा कीजिए।

5. Write short notes on the following :

टिप्पणी कीजिए :

(a) Systematic Investment Plan

व्यवस्थित निवेश योजना

(b) Mutual Fund Schemes

म्यूचुअल फंड योजनाएँ

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 4809A

L

Unique Paper Code : 6967000008

Name of the Paper : Financial Literacy

Name of the Course : VAC

Semester : II

Duration : 2 Hours 30 min

Maximum Marks : 70

समय : 2 घण्टे 30 मिनट्स

पूर्णांक : 70

(Part A=30 & Part B=40 marks)

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

PART A

(30 marks)

1. Question No. 1 is compulsory.
प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है।
 4. Answer any **two** questions from question nos. 2 to 4.
प्रश्न संख्या 2 से 4 तक किन्हीं दो के उत्तर लिखिए।
 5. **All** questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
 6. Use of Simple Calculator is allowed.
साधारण कैलकुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है।
1. Write short notes on **any two** :
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए :
 - (a) Saving account vs Current account
बचत खाता बनाम चालू खाता
 - (b) Life and Non-Life Insurance
जीवन और गैर-जीवन बीमा
 - (c) Digitisation of Financial Transactions
वित्तीय लेनदेन का डिजिटलीकरण
 2. Explain the concept of annuity? Find out the present value of an annuity of ₹10000 payable at the end of each year for 11 years if the rate of interest is 8% p.a. $(PVA_{(11y, 8\%)} = 7.139)$
वार्षिकी (Annuity) की अवधारणा को समझाइए। यदि ब्याज दर 8% प्रति वर्ष हो, तो 11 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष के अंत में देय ₹10,000 की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। $(PVA_{(11y, 8\%)} = 7.139)$
 3. Discuss the various types of investment products available for an individual investor in order to manage his/her finances.

किसी व्यक्तिगत निवेशक के लिए अपने वित्त का प्रबंधन करने के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के निवेश उत्पादों पर चर्चा कीजिए।

4. Ms. Shashi, 64 years, has a basic salary of ₹1,20,000 p.m. and a DA of ₹8000 p.m. He has income from interest from savings bank account of ₹12,000 and a fixed deposit interest income of ₹10,000 during the year. He has made some investments to save income tax as follows :
 - LIC premium paid on own life ₹17,000.
 - Medical insurance, for self, paid ₹28,000.
 - PPF investment of ₹85,000.
 Calculate his tax liability as per the old tax regime for assessment year 2026-27.
 सुश्री शशि (64 वर्ष) का मूल वेतन 1,20,000 रुपये प्रति माह है। और 8000 रुपये प्रति माह का डीए। वर्ष के दौरान उन्हें बचत बैंक खाते से ब्याज से 12,000 रुपये और सावधि जमा से ब्याज से 10,000 रुपये की आय हुई। उन्होंने इनकम टैक्स बचाने के लिए कुछ निवेश इस प्रकार किए हैं :
 - स्वयं के जीवन पर एलआईसी प्रीमियम का भुगतान 17,000 रुपये।
 - स्वयं के लिए चिकित्सा बीमा, 28,000 रुपये का भुगतान।
 - रुपये का पीपीएफ निवेश, 85,000
 आकलन वर्ष 2026-27 के लिए पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार उसकी कर देनदारी की गणना कीजिए।

PART B

1. Answer any **Four** Questions.
किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।